

ET-M3140/M3140 Series
ET-M3170/M3170 Series
ET-M3180/M3180 Series

EN Start Here
TC 安裝說明

HI यहाँ आरंभ करें
MN Энд эхэл



© 2018 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

**Setup /
設定 /
सेटअप /
Тохируулга**

Read This First
This printer requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tank is filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

請先閱讀本說明
請小心處理印表機的墨水。在大容量墨水槽中裝填或填充墨水時，墨水可能會濺出。如果墨水碰到您的衣物或物品，可能會無法清除乾淨。

पहले इसे पढ़ें
इस प्रिंटर में इंक की सावधानीपूर्वक देखभाल करने की आवश्यकता होती है। जब इंक के टैंक भरे हों या इंक रीफिल की जा रही हो तो इंक फेल सकती है। यदि इंक आपके कपड़े या सामान पर लग जाती है, तो यह शायद निकलेगी नहीं।

Үүнийг эхлээд уншина уу
Энэхүү принтерийн бэхтэй болгоомжтой харьцах шаардлагатай. Бэхний сав дүүрэх, эсвэл дахин дүүргэх үед бэх асгарах аюултай. Хэрвээ бэх таны хувцас юмуу эд зүйлс дээр асгарвал, арилахгүй байж магадгүй.

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions.

請參閱本指南或 Epson 視訊指南以瞭解印表機設定說明。

प्रिंटर के सेटअप निर्देशों के लिए यह मार्गदर्शिका या Epson वीडियो मार्गदर्शिका देखें।

Принтерийн тохируулах зааврыг, энэхүү гарын авлага эсвэл Epson видео гарын авлагаас үзнэ үү.

<http://epson.sn>

Windows users can also setup using the CD supplied. Windows 使用者亦可使用提供的 CD 進行設定。Windows उपयोगकर्ता भी दी की गई CD का उपयोग करके सेट अप कर सकते हैं। Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан тохируулгыг хийж боломжтой.

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.

The initial ink bottle will be partly used to charge the print head. This bottle may print fewer pages compared to subsequent ink bottles. 原始墨水瓶會有一部分墨水被用於填充印字頭。此墨水瓶可能比後來的墨水瓶列印頁數更少。

आरंभिक इंक बोतल का उपयोग प्रिंट हेड को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। यह बोतल बाद की इंक बोतलों की तुलना में कुछ पेजों को प्रिंट कर सकती है।

Хэвлэх толгойг цэнэглэхэд, эхний бэхний бортогыг хэсэгчлэн ашиглана. Энэхүү бэхний бортог нь дараагийн бэхний бортоготой харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж болно.

1 2 3 4 5
**Unpacking /
拆開包裝 /
पैकिंग खोलना /
Задлах**

1

Windows

Make sure you keep the accessory box for transportation. 請確保運輸時攜帶附件箱。 सुनिश्चित करें कि परिवहन के लिए आपने एक्सेसरी बॉक्स भी रखा है। Тээвэрлэхэд зориулж дагалдах хэрэгслийн хайрцгийг хадгалахаа мартуузай.

Additional items may be included depending on the location. 視乎不同位置，可能包含額外項目。 स्थान के आधार पर अतिरिक्त आइटमों को शामिल किया जा सकता है। Байршлаас шалтгаалан, нэмэлт зүйлс агуулагдсан байж болно.

2

3

4

1 2 3 4 5
**Charging Ink /
填充墨水 /
इंक चार्ज करना /
Бэх цэнэглэх**

1

2

1

- Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- Use the ink bottle that came with your product.
- Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.
- 墨水瓶保持直立時，拆下瓶蓋，否則墨水可能外洩。
- 使用產品隨附的墨水瓶。
- Epson 不保證非原廠墨水的品質或可靠性。使用非原廠墨水而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。
- इंक की बोतल की कैप निकालते समय उसे सीधा रखें; अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- अपने उत्पाद के साथ आने वाली इंक की बोतल का उपयोग करें।
- Epson गैर-वास्तविक इंक की गुणवत्ता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दे सकता। गैर-वास्तविक इंक का उपयोग करने से क्षति हो सकती है जो Epson की वारंटी में शामिल नहीं है।
- Бэхний бортогыг босоо байлгаж тагийг авна; эс тэгвээс, бэх асгарч болно.
- Бүтээгдэхүүнтэй хамт ирсэн бэхний бортогыг хэрэглээрэй.
- Epson жинхэнэ бус хорны чанар ба найдвартай ажиллагаанд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхийг хэрэглэх нь Epson-ы баталгаанд үл хамрагдах гэмтэл учруулж болзошгүй.

3

1

Do not knock the ink bottle, otherwise the ink may leak. 請勿敲擊墨水瓶，否則可能導致墨水漏出。 इंक की बोतल को ठोके नहीं, अन्यथा इंक लीक हो सकती है। Бэхний савыг цохиж болохгүй. Цохивол, бэх асгарч болно.

4

Pour all of the ink from the bottle into the printer. 將墨水瓶中的所有墨水填充至印表機。 प्रिंटर में बोतल की सारी इंक डाल दें। Бэхний саван дахь бүх бэхийг принтер лүү хийнэ.

1

- If the ink does not start flowing into the tank, remove the ink bottle and try reinserting it.
- Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.
- 如果墨水未開始流入大容量墨水槽，請取出墨水瓶並嘗試重新插入墨水瓶。
- 請勿讓墨水瓶維持插入狀態；否則墨水瓶可能會受損或墨水可能會漏出。
- यदि इंक टैंक में जाना शुरू नहीं होती है, तो इंक की बोतल को निकालें और इसे फिर से डालें।
- इंक की बोतल को डाल कर छोड़ें नहीं; अन्यथा बोतल क्षतिग्रस्त हो सकती है या इंक टपक सकती है।
- Хэрэв бэх сав руу урсаж эхлэхгүй байвал, бэхний савыг салгаад буцааж хийж үз.
- Бэхний савыг хийсэн байдлаар үлдээж болохгүй. Эс бөгөөс, сав гэмтэж эсвэл бэх гоожиж болно.

5

6

7

8

9

Off. 熄滅。 बंद। Унтраах.

Flashing. 閃爍。 पल्लिंग। Анивчих.

10

Follow the on screen instructions. 依據畫面說明操作。 स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें। Дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага.

11

When the message of seeing Start Here is displayed, press for 5 seconds. 顯示查看安裝說明的訊息時，請按下 鍵 5 秒。 जब दिखाई देने वाला संदेश यहाँ आरंभ करें प्रदर्शित होता है, तो को 5 सेकंड तक दबाए। Энд эхэл зурвас гарч ирсэн үед, 5 секунд дарна.

12

Follow the on screen instructions to start initialization. This takes about 10 minutes. 依據畫面說明開始初始化。這需要約 10 分鐘。 आरंभ करने के लिए स्क्रीन के निर्देशों का पालन करें। इसमें लगभग 10 मिनट लग सकते हैं। Эхлүүлэлтийн эхлүүлэхийн тулд дэлгэцний зааварчилгааг дага. Энэ нь 10 минут орчим болно.

1 2 3 4 5
**Checking Print Quality /
檢查列印品質 /
प्रिंट गुणवत्ता को जांचना /
Хэвлэх чанарыг шалгах**

1

Follow the on screen instructions to perform a Print Head Nozzle Check and make adjustments. When the paper loading message is displayed, see step 2. 依據畫面說明執行印字頭噴嘴檢查並進行調整。當顯示紙張放入訊息時，請參考步驟 2。 प्रिंट हेड नोजल जांच करने और समायोजन करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें। जब पेपर लोडिंग का संदेश प्रदर्शित होता है, तो चरण 2 देखें। Хэвлэх толгойн цэвэрлэгээ нь бэхний савнаас зарим бэхийг ашигладаг.

Print head cleaning uses some ink from the ink tank. 使用墨水槽中的一些墨水清理印字頭。 प्रिंट हेड की सफाई में इंक टैंक से कुछ इंक का उपयोग किया जाता है। Хэвлэх толгойн цэвэрлэгээ нь бэхний савнаас зарим бэхийг ашигладаг.

2

3

A4x5

1 2 3 4 5
**Fax Setup /
傳真設定 /
फैक्स सेटअप /
Факс тохируулга**

Follow the on screen instructions to make the fax settings. You can change these settings later. If you do not want to make settings now, close the fax settings screen and go to the next section. 依據畫面說明進行傳真設定。這些變更可於稍後變更。如果不想現在進行設定，請關閉傳真設定畫面，前往下一節。 फैक्स सेटिंग करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें। आप इन सेटिंग को बाद में बदल सकते हैं। यदि आप अभी सेटिंग नहीं करना चाहते हैं तो फैक्स सेटिंग स्क्रीन को बंद करें और अगले सेक्शन पर जाएं। Факсын тохируулгыг хийхийн тулд дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага. Та эдгээр тохируулгыг дараа өөрчилж болно. Хэрвээ та тохируулгыг одоо хийхийг хүсэхгүй байвал, факсын тохируулгыг хааж дараагийн хэсэг рүү оч.

1

Connect a phone cable. 連接電話線纜。 फोन केबल कनेक्ट करें। Утасны кабелийг холбо.

	Connecting to PSTN or PBX. 連接 PSTN 或 PBX。 PSTN या PBX से कनेक्ट करना। PSTN юмүү PBX-д холбогдох.
	Connecting to DSL or ISDN. 連接 DSL 或 ISDN。 DSL या ISDN से कनेक्ट करना। DSL юмүү ISDN-д холбогдох.

Available phone cable	RJ-11 Phone Line / RJ-11 Telephone set connection.
可用電話線纜	RJ-11 電話線纜 / RJ-11 電話機連接。
उपलब्ध फोन केबल	RJ-11 फोन लाइन / RJ-11 टेलीफोन सेट कनेक्शन।
Бэлэн утасны кабель	RJ-11 Утасны шугам / RJ-11 Телефон утасны багц холболт.

Depending on the area, a phone cable may be included with the printer, if so, use the cable. 視乎您所在的區域，印表機可能附帶電話線纜，若如此，請使用該線纜。 क्षेत्र पर निर्भर करते हुए फोन केबल को प्रिंटर के साथ शामिल किया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो केबल का उपयोग करें। Бус нутгаас хамаарч утасны кабель принтерийг дагалдсан бол тэр кабелийг ашигла.

2

If you want to share the same phone line as your telephone, remove the cap and then connect the telephone to the EXT. port. 如果您想將此同一電話線路共用為電話，請取下護蓋，然後連接電話 EXT. 連接埠。 यदि आप अपने टेलीफोन वाले फोन लाइन को ही साझा करना चाहते हैं तो कैप को निकालें और फिर टेलीफोन को EXT. पोर्ट से कनेक्ट करें। Хэрвээ та ижил утасны шугамыг таны телефон утас болгон хуваалцахыг хүсвэл, тагийг аваад телефон утгыг EXT. Оролтонд холбоорой.

1 2 3 4 5
**Connecting to Computer /
連接電腦 /
कम्प्यूटर से कनेक्ट करना /
Компьютертой холбогдох**


<http://epson.sn>

Visit the website to install software. Windows users can also install software using the CD supplied. The user of the printer for ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180 Series can also configure the Network from the website and CD supplied. 瀏覽網站以安裝軟體。Windows 使用者亦可使用提供的 CD 安裝軟體。ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180 系列印表機的使用者和還可從網站和提供的 CD 組態網路。 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट देखें। Windows उपयोगकर्ता भी दी गई CD का उपयोग करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180 सीरीज़ के लिए प्रिंटर के उपयोगकर्ता वेबसाइट और साथ दी गई CD से भी नेटवर्क कॉन्फिगर कर सकते हैं।

Программ хангамжийг суулгахын тулд вэбсайтээр зочилно уу. Windows-н хэрэглэгчид нийлүүлсэн CD-г ашиглан программ хангамжийг суулгах боломжтой. ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180 Серийн принтерийн хэрэглэгч сулжээг вэбсайт юмүү дагалдаж ирсэн CD-нээс тохируулж болно.

How to Use / 如何使用 / उपयोग विधि / Хэрхэн ашиглах вэ

Guide to Control Panel / 控制面板指南 / कंट्रोल पैनल की मार्गदर्शिका / Хянах самбарын заавар



🔌	Turns the printer on or off.
🏠	Displays the home screen.
🕒	Displays the solutions when you are in trouble.
📄	Turns on when received documents that have not yet been read, printed, or saved, are stored in the printer's memory.

A message is displayed on the LCD screen if there is an error or information that requires your attention. See the *User's Guide* for more details.

🔌	開啟或關閉印表機的電源。
🏠	顯示主畫面。
🕒	您遇到問題時，可顯示解決方案。
📄	在接收的文件尚未被讀取、列印或儲存並被保存於印表機記憶體內時開啟。

如果出現錯誤或需要您注意的資訊，LCD 螢幕上會顯示一條訊息。若需更多詳細資訊，請參考 [進階使用說明](#)。

🔌	प्रिंटर को चालू या बंद करता है।
🏠	होम स्क्रीन को प्रदर्शित करता है।
🕒	जब आप परेशानी में होते हैं तो समाधान प्रदर्शित करता है।
📄	जब ऐसे दस्तावेज़ प्राप्त हों, जिनको अब तक पढ़ा न गया हो, प्रिंट न किया गया हो या सहेजा न गया हो, और वे प्रिंटर की मेमोरी में स्टोर हो गए हों तो चालू होता है।

यदि ऐसी कोई वृत्ति या जानकारी होती है जिस पर आपका ध्यान देना आवश्यक हो तो LCD स्क्रीन पर एक संदेश प्रदर्शित होता है। अधिक विवरणों के लिए [उपयोगकर्ता गाइड](#) देखें।

🔌	Принтерийг асааж, унтраана.
🏠	Нүүр дэлгэцийг харуулна.
🕒	Таныг асуудалтай тулгарахад шийдлийг харуулна.
📄	Уншигдаагүй, хэвлэгдээгүй, хадгалагдаагүй баримт бичиг хүлээн авсан үед принтерийн санах ойд хадгална.

Алдаа юмуу таны анхаарал хандуулах шаардлагатай мэдээлэл байвал LCD дэлгэцэн дээр зурвасыг харуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээлийг [Хэрэглэгчийн Заавар](#)-аас үзнэ үү.

Ink Bottle Codes / 墨水瓶編碼 / इंक बोतल कोड / Бэхний савны кодууд

For Europe / 對於歐洲 / यूरोп के लिए / Европын улсуудад зориулав

ET-M3140/ET-M3170/ET-M3180	111
M3140/M3170/M3180	110 ¹⁾ /110S ²⁾

For Australia and New Zealand

	532
--	-----

For Asia / 對於亞洲 / एशिया के लिए / Азийн улсуудад зориулав

	00S ¹⁾ /00S ²⁾
--	--------------------------------------

¹⁾ High capacity / ²⁾ Standard capacity

¹⁾ 高性能 / ²⁾ 標準性能

¹⁾ उच्च क्षमता / ²⁾ मानक क्षमता




¹⁾ Өндөр хүчин чадалтай / ²⁾ Стандарт хүчин чадал

Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties. 若使用非本手冊所述的 Epson 原廠墨水，而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。

वास्तविक Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।

Epson-н жинхэнэ бэхнээс өөр бэх ашиглавал эвдрэл гэмтэл учруулах бөгөөд үүнийг Epson-н баталгаанд хамрахгүй.

Copying / 複印 / कॉपी करना / Хувилах



4 Select **Copy** on the control panel.
從控制面板上選取複印。
कंट्रोल पैनल पर **प्रतिकृति बनाएँ** चुनें।
Хянах самбар дээрх **Хувилах** -г сонго.

5 Make other settings as necessary.
根據需要進行其他設定。
आवश्यकतानुसार अन्य सेटिंग्स बनाएँ।
Шаардлагатай бол бусад тохиргоог хий.

6 Select **☒**.
選取 **☒**.
☒ चुनें।
☒-г сонго.

Refilling Ink / 填充墨水 / इंक को रीफ़िल करना / Бэхний дахин дүүргэх

To confirm the actual ink remaining, visually check the ink level of the product's tank.

若要確認實際的墨水存量，請查看產品的大容量墨水槽中的墨水存量。यह पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में कितनी इंक शेष है, सभी उत्पाद के टैंकों में इंक स्तर की देख कर जांच करें।

Бэхний бодит үлдэгдлийн шалгахын тулд бүтээгдэхүүний саван доторх бэхний түвшинг нүдээр шалгана.

1 Select **Maintenance** > **Reset ink level** on the control panel.
從控制面板上選取**維護** > **重置墨水位**。
कंट्रोल पैनल पर **रखरखाव** > **स्वही स्तर रीसेट करें** चुनें।
Хянах самбар дээр **Арчилгаа** > **Бэхний Түвшинг Тэглэх** -г сонго.


Use of genuine Epson ink other than the specified ink could cause damage that is not covered by Epson's warranties. 若使用非本手冊所述的 Epson 原廠墨水，而導致損壞，Epson 將不提供免費的保固服務。

वास्तविक Epson इंक की जगह अन्य इंक का इस्तेमाल करने से नुकसान हो सकता है जो Epson की वारंटी के तहत कवर नहीं होगा।

Epson-н жинхэнэ бэхнээс өөр бэх ашиглавал эвдрэл гэмтэл учруулах бөгөөд үүнийг Epson-н баталгаанд хамрахгүй.

2 Follow the instructions on the screen to refill the ink.
依據畫面上的說明填充墨水。
इंक को रीफ़िल करने के लिए स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें।
Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж бэхний дахин дүүргэнэ үү.

Ink flow stops automatically when the ink level reaches the upper line.
當墨水存量達到最高標示線時，墨水即會自動停止流入。
इंक का स्तर ऊपरी लाइन तक पहुंचने पर इंक का प्रवाह स्वतः रूप से बंद हो जाता है।
Бэхний түвшин дээд зураасанд хүрэхэд бэхний урсгал автоматаар зогсоно.




Print Quality Help / 列印品質說明 / प्रिंट गुणवत्ता सहायता / Хэвлэх чанарын тусламж

If you see missing segments or broken lines in your printouts, print a nozzle check pattern to check if the print head nozzles are clogged. See the *User's Guide* for more details.

如果您在列印成品上看到缺失的片段或斷線，請列印噴嘴檢查圖案以查看列印噴嘴是否堵塞。若需更多詳細資訊，請參考 [進階使用說明](#)。





यदि आपको अपने प्रिंट आउट में कुछ हिस्से नहीं दिखते हैं या टूटी हुई पंक्तियाँ दिखती हैं तो यह देखने के लिए नोजल चेक पैटर्न प्रिंट करें कि क्या प्रिंट हेड नोजल जाम हो गया है। अधिक विवरणों के लिए [उपयोगकर्ता गाइड](#) देखें।

Хэрвээ таны хэвлэлтэнд дутуу хэсэгүүд юмуу тасархай зураас гарч байвал хэвлэх толгойн хошуу буглерсэн эсхийг шалгахын тулд хошуу шалгах хэзэг хэвлэ. Дэлгэрэнгүй мэдээлийг [Хэрэглэгчийн Заавар](#)-аас үзнэ үү.





Clearing Paper Jam / 清除夾紙 / पेपर जाम हटाना / Цаас гацалтыг арилгах



Printer cover / 印表機護蓋 / प्रिंटर कवर / Принтерийн тэг





Front cover / 前護蓋 / आगे का कवर / Урд тэг









Rear cover / 後護蓋 / पीछे का कवर / Арын тэг



ADF / ADF / ADF / ADF



Transporting and Storing the Printer / 搬運和儲存印表機 / प्रिंटर को कहीं ले जाना और रखना / Принтерийг тээвэрлэх ба хадгалах



- Be sure to keep the ink bottle upright when tightening the cap. Place the printer and the bottle in a plastic bag separately and keep the printer level as you store and transport it. Otherwise ink may leak.
- After you move it, remove the tape securing the print head. If you notice a decline in print quality, run a cleaning cycle or align the print head.
- 擰緊瓶蓋時請務必保持墨水瓶向上直立。將印表機和墨水瓶分別放入單獨塑料袋中，存放和搬運印表機時保持印表機處於水平狀態。否則墨水可能洩漏。
- 搬至地點後，請撕下固定印字頭的膠帶。若您發現列印品質降低，請清潔或校正印字頭。

- सुरेचित करें कि कैप को टाइट करते समय इंक बोतल सीधी रखी हो। प्रिंटर के संग्रहण और परिवहन करते समय प्रिंटर और बोतल को प्लास्टिक बैग में अलग से रखें और प्रिंटर को लेवल में रखें। अन्यथा इंक लीक हो सकती है।
- इसे स्थानांतरित करने के बाद, प्रिंट हेड को सुरक्षित रखने वाला टेप निकाल दें। यदि आपको प्रिंट की गुणवत्ता में कोई कमी दिखाई देती है, तो क्लिनिंग साइकल चलाएँ या प्रिंट हेड को संरेखित करें।

- Тэгийг чангалж байх үедээ бэхний бортогыг босоо байлгаарай. Принтер болон бортогыг гялгар ууганд тусад нь байлгаж, принтерийг хадгалах болон тээвэрлэх үедээ принтерийн түвшинг хэвээр хадгалах. Эс тэгвээс, бэх асгарч болно.
- Зөвөөрлөсний дараа хэвлэх толгойг тагласан туузыг авна. Хэрвээ хэвлэлтийн чанар муудаж байгааг анзаарвал цэвэрлэгээний циклийг ажиллуулж, хэвлэх толгойг тэгшитгээрэй.

Information for Users in Taiwan Only / 台灣使用者適用資訊

產品名稱：多功能印表機
額定電壓：AC 100-240 V
額定頻率：50-60 Hz
耗電量：
單機印時：12.0 W 睡眠模式：0.9 W
複機印時：5.4 W 關機模式：0.2 W
額定電流：0.5-0.2 A
製造年份、製造號碼和生產國別：見機體標示

警告
檢修本產品之前，請先拔掉本產品的電源線。

功能規格

- 列印方式：微針點壓噴墨技術
- 解析度：最大可達 1200 × 2400 dpi
- 適用系統：
Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3以上版本(32-bit),
XP Professional x64 Edition SP2以上版本
Windows Server 2016*, 2012 R2*, 2012*, 2008 R2*, 2008*,
2003 R2*, 2003 SP2以上版本*
(* 僅限印表機驅動程式與掃描器驅動程式。)
macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan,
OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion,
Mac OS X v10.7.x, Mac OS X v10.6.8

使用方法
見內附相關說明文件

- 緊急處理方法
發生下列狀況時，請先拔掉印表機的電源線並洽詢Epson授權服務中心：
- 電源線或插頭損壞
 - 有液體噴濺到印表機
 - 印表機掉落或機殼損壞
 - 印表機無法正常操作或是列印品質與原來有明顯落差

製造商：SEIKO EPSON CORPORATION
地址：3-3-5 Owa, Suwa-shi, Nagano-ken, 392-8502 Japan
電話：81-266-52-3131
進口商：台灣愛普生科技股份有限公司
地址：台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

- 注意事項
- 只能使用印表機標籤上所註明的電源規格。
 - 請保持工作場所的通風良好。

「限用物質含有情況」標示內容，請至下列網址查詢。
URL：http://www.epson.com.tw/TW_RoHS

NCC警告
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the *User's Guide* (digital manual) for more details. You can obtain the latest versions of guides from the following website.

本指南包含有關本產品和故障排除小貼士的基本資訊。若需更多詳細資訊，請參考 [進階使用說明](#)（數位手冊）。您可從以下網站獲取最新版指南。

इस मार्गदर्शिका में आपके उत्पाद और समस्या निवारण युक्तियों के बारे में मूल जानकारी शामिल होती है। अधिक विवरणों के लिए [उपयोगकर्ता गाइड](#) (डिजिटल मैनुअल) देखें। आप इस वेबसाइट से मार्गदर्शिका का नवीनतम संस्करण प्राप्त कर सकते हैं।

Энэ гарын авлага нь таны бүтээгдэхүүний тухай үндсэн мэдээлэл болон алдааг олж засварлах зөвлөмжүүд агуулдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээлийг [Хэрэглэгчийн Заавар](#) (дижитал гарын авлага)-аас үзнэ үү. Та дараах вебсайтаас гарыг авлагын хамгийн сүүлийн хувилбаруудыг авах боломжтой.

For outside Europe / 對於歐洲以外 / यूरोप के बाहर के लिए / Европын гаднах улсуудад зориулав
<http://support.epson.net/>

For Europe / 對於歐洲 / यूरोप के लिए / Европын улсуудад зориулав
<http://www.epson.eu/Support>

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GBSV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладания відповідне вімогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabiliriz.

Örütici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-3-5, Owa 3-home, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

